



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, फरवरी 14—फरवरी 20, 2016, शनिवार/माघ 25—फाल्गुन 1, 1937
No. 5] NEW DELHI, FEBRUARY 14—FEBRUARY 20, 2016, SATURDAY/MAGHA 25—PHALGUNA 1, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders, and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

आ.अ. 11.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2014 में नीचे की सारणी में स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाला अभ्यर्थी अपने नाम के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से आयोजित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त असफलता के लिए या तो कोई उपयुक्त कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार करने के उपरान्त, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2014	60—पोंगचाओ—वक्का (अ.ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री कपानी वांग्सा गाँव—नागिसा थाना / डाकघर—वक्का जिला — लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे ।
2.	—वही—	—वही—	श्री होलाई वांग्सा गाँव / डाकघर / थाना —पोंगचाओ जिला—लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश	विधि द्वारा अपेक्षित ढंग से निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे ।

[सं. 76/अरुण—वि०स०/2014]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th February, 2016

O. N. 11.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2014 in the State of Arunachal Pradesh held from the constituency specified in column 3 against his name has failed to lodge the account of his election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by him, if any, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:

TABLE

SL. No.	Particulars of Election	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2014 in the State of Arunachal Pradesh	60-Pongchau-Wakka(ST)	Shri Kapnai Wangsa Vill. Ngissa PO/PS – Wakka Dist. - Longding Arunachal Pradesh	Failed to lodge accounts of election expenses.
2.	-do-	-do-	Shri Holai Wangsa Vill./PO/PS – Pongchau Dist. Longding Arunachal Pradesh	Failed to lodge accounts of election expenses in the manner required by law.

[No.76/ARUN-LA/2014]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

आ.अ. 12—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ...2 | में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ ...3 | में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ ...4 | में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ...5 | में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ...4 | में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :

सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	1—भरतपुर सोनहत (अ० ज०जा०)	कृष्ण कुमार चेरवा, ग्राम—बड़वार पो—कटगोड़ी , तह—सोनहत, जिला—कोरिया , छत्तीसगढ़ ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
2.	—वही—	—वही—	रविशंकर सिंह कवरं, निवासी— कन्नौज , तहसील— भरतपुर, जिला— कोरिया, छत्तीसगढ़ ।	—वही—
3.	—वही—	—वही—	लालमन सिंह नेताम, निवासी— सोनहत, तहसील सोनहत, जिला —कोरिया , छत्तीसगढ़	—वही—
4.	—वही—	2—मनेन्द्रगढ़	डा० एल० पी० मौर्य , ग्राम—नार्थ झगराखांड दफाई , नं० 1 वार्ड नं० 3 , पो०आ०—नार्थ झगराखांड, तहसील—मनेन्द्रगढ़ , जिला—कोरिया , छत्तीसगढ़ ।	—वही—
5.	—वही—	—वही—	सोनू सिंह उरांव (छक्का) , मोहारपारा, वार्ड नं० 9, मनेन्द्रगढ़ जिला—कोरिया , छत्तीसगढ़ ।	—वही—
6.	—वही—	—वही—	धजाराम , ग्राम—हल्दीबाड़ी आमनाला 4 नं० , दफाई पो—डोमनहील, जिला—कोरिया , छत्तीसगढ़ ।	—वही—
7.	—वही—	4—प्रेम नगर	रामदयाल उईके, ग्राम— सलका, पोस्ट— प्रेमनगर, जिला— सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ।	—वही—

8.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	4—प्रेम नगर	हिरासाय प्रजापति , ग्राम— रघुनाथपुर, थाना— प्रेमनगर, जिला— सूरजपुर, छत्तीसगढ़।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9.	—वही—	5— भटगांव	दिलेश्वर राम राजवाड़े, कुमदा बस्ती, पोस्ट—गांगीकोट, तहसील— सूरजपुर, छत्तीसगढ़।	—वही—
10.	—वही—	—वही—	प्रदीप कुमार गुप्ता, ग्राम—दर्सीपारा, पो0—दर्सीपारा, भैयाथना, छत्तीसगढ़।	—वही—
11.	—वही—	—वही—	शिव कुमार, विश्रामपुर डिपार्टमेंटल, म.नं.— 521, पो0— विश्रामपुर, जिला— सूरजपुर, छत्तीसगढ़।	—वही—
12.	—वही—	6— प्रतापपुर	देव शरणसिंह नेटी , ग्राम— तोरफा, पोस्ट—गुड़रु, तहसील— वाड्डफनगर , जिला— बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।	—वही—
13.	—वही—	39—सरायपाली	रोहिदास चौहान, ग्राम व पोस्ट भंवरपुर, तहसील बसना, (सरायपाली), जिला महासमुन्द छत्तीसगढ़।	—वही—
14.	—वही—	54— राजिम	भुनेश्वर यादव, ग्रा— धवलपुर, थाना— मैनपुर, तह.— गरियाबंद, जिला— गरियाबंद, छत्तीसगढ़।	—वही—
15.	—वही—	55—बिन्द्रानवागढ़	चित्रसेन नागेश, ग्राम— सिहारलटी, डाकघर— धुरवागुड़ी थाना— देवभोग, जिला— गरियाबंद, छत्तीसगढ़।	—वही—
16.	—वही—	—वही—	महेद्र नेताम, ग्राम— चलकी पारा, पोस्ट— जिडार, थाना— मैनपुर, तहसील— मैनपुर, जिला— गरियाबंद, छत्तीसगढ़।	—वही—
17.	—वही—	—वही—	रामेश्वर सिंह कोमर्रा, ग्राम— पारागांव डीह, पोस्ट— धवलपुर, थाना— मैनपुर, तहसील— मैनपुर, जिला— गरियाबंद, छत्तीसगढ़।	—वही—
18.	—वही—	—वही—	दैनिक राम मण्डावी, ग्राम— कोकडी, पो.आ.— गौरगांव, तहसील— मैनपुर, थाना— शोभा, जिला— गरियाबंद, छत्तीसगढ़।	—वह—

[सं. 76/छ.ग.—वि.स./2013]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th February, 2016

O. N. 12.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2013 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column(3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column(5) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

Sl.No.	Particulars of Election	Number &Name of the Assembly Constituency	Name &Address of the Candidate	Reason of disqualification
1	2		4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2013 from the State of Chhattisgarh.	1- Bharatpur Sonhat (ST)	Krishna Kumar Cherwa, Village- Badwar, Post- Katgodi, Distt- Korea, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of election expenses
2.	-do-	-do-	Ravishankar Sing, Kanwar, Residence-Kannoj, Tahsil,- Bharatpur, Distt- Korea, Chhattisgarh	-do-
3.	-do-	-do-	Lalman Sing Natam Residence-Sonhat, Tahsil- Sonhat, Distt- Korea, Chhattisgarh	-do-
4.	-do-	2-Manendragarh	Dr. L.P.Mourya Gram- North Jhagrakhand Dafai No-1, Ward No.03 Tehsil- Manendragarh Distt. Korea (Chhattisgarh)	-do-
5.	-do-	-do-	Sonu Singh Orauv (Chhakka) Mouharpara Ward No-9 Manendragarh Distt. Korea , Chhattisgarh,	-do-
6.	-do-	-do-	Dhajaram Gram- Haldibadi Aamanala 4 No.- Dafai PO, - Domanhil , Distt. Korea, Chhattisgarh,	-do-
7.	-do-	4 - Premnagar	Ramdayal Uike Vill- Salka, Post- Premnagar, Dist- Surajpur, Chhattisgarh.	-do-
8.	-do-	-do-	Hirasai Prajapati, Vill- Raghunathpur, Thana- Premnagar, Distt.- Surajpur, Chhattisgarh.	-do-

9.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh	5 – Bhatgaon	Dileshwar Ram Rajwade, Kumda Basti, PO- Gangikoti, Tah- Surajpur, Chhattisgarh,	Failure to lodge any account of election expenses
10.	-do-	-do-	Pradeep Kumar Gupta, Vill- darripara, PO- Darripara Bhaiyathan Chhattisgarh,	-do-
11.	-do-	-do-	Shiv Kumar, Bishrampur Dipartmental House No- 521, PO- Bishrampur, Dist- Surajpur, Chhattisgarh,	-do-
12.	-do-	6- Pratappur	Devsharan Singh Neti, Gram- Torpha, Post- Gudru, Tahsil- Wadraf Nagar, District- Balrampur- Ramanujganj, Chhattisgarh,	-do-
13.	-do-	39- Saraipali	Rohidas Chouhan, Vill & Post- Bhanvarpur, Tah- Basna, Dist- Mahasamund, Chhattisgarh,	-do-
14.	-do-	54-Rajim	Bhuneshwar Yadav Village- Dhawalpur, Thana-Mainpur, Tahsil-Gariaband, Dist.-Gariaband, Chhattisgarh,	-do-
15.	-do-	55-Bindranavagarh	Chitrasen Nagesh Gram- Siharlati, Post,- Dhuravagudi, Thana- Devbog, Dist.- Gariaband, Chhattisgarh,	-do-
16.	-do-	-do-	Mahendra Netam Gram.- Chalki Para, Post.- Zidar, Thana.- Maipur, Tahsil-Maipur Dist.- Gariaband, Chhattisgarh,	-do-
17.	-do-	-do-	Rameshwar Singh Komarra, Gram- Paragav Dih, Post- Dhvalpur, Thana- Maipur, Tah- Maipur, Dist- Gariaband, Chhattisgarh,	-do-
18.	-do-	-do-	Dainik Ram Mandavi Gram- Kokdi, Post Office-Gaurav, Tah- Maipur, Thana- Shobha, Dist- Gariband, Chhattisgarh,	-do-

[No. 76/CG-LA/2013]

By Order,
R. K. SRIVASTAVA, Principal Secy.

(भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2016

आ.अ. 13.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग गोवा राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री प्रशांत गोयल, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री अमजद टाक, आई.ए.एस.(ए.जी.एम.यू.: 2005) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए गोवा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री अमजद टाक गोवा सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे जो कि वह ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री अमजद टाक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोवा के रूप में कार्य करते हुए गोवा सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[सं.154/गोवा/2015-P.Admin.]

आदेश से,

स्टैंडहोप युहलुंग, प्रधान सचिव

(Secretariat of the Election Commission of India)

New Delhi, the 16th February, 2016

O. N. 13.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Goa hereby nominates Shri Amjad Tak, IAS (AGMU:2005) as the Chief Electoral Officer for the State of Goa with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Prashant Goyal, IAS.

2. Shri Amjad Tak shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Goa, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Amjad Tak while functioning as the Chief Electoral Officer, Goa shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Goa except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/GOA/2015-P. Admn.]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Principal. Secy.